



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1536]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2007/अग्राहायण 21, 1929

No. 1536]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2007/AGRAHAYANA 21, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2122(अ).—यतः मै. सीव्यू डेवलपर्स लि. ने उत्तर प्रदेश राज्य में प्लॉट सं. 20 तथा 21, सेक्टर-135, नोएडा में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उक्त प्लॉट सं. 20 तथा 21, सेक्टर-135, नोएडा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास एवं प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 21 जून, 2006 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में प्लॉट सं. 20 तथा 21, सेक्टर-135, नोएडा को शामिल करते हुए 12 हेक्टेयर भूमि को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एफ-2/40/2006-ईपीजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2007

S.O. 2122(E).—Whereas M/s. Seaview Developers Limited in the State of Uttar Pradesh, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology at Plot No. 20 and 21, Sector-135, Noida in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development and operation of the sector specific Special Economic Zone for information technology at the said Plot No. 20 and 21, Sector-135, Noida in the State of Uttar Pradesh on 21st June, 2006;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the land measuring 12 hectares at Plot No. 20 and 21, Sector-135, Noida in the State of Uttar Pradesh as a Special Economic Zone.

[F. No. F-2/40/2006-EPZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.